



SARKARI LIVE.in

केरल सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार केरल की पहली महिला DGP कौन होंगी?

के. रुकमणी

मधु श्रीवास्तव

आर. श्रीलेखा

कृष्णा विद्यावती

आर. श्रीलेखा — केरल की पहली महिला DGP होंगी

1987 बैच की आई.पी.एस. अफसर आर. श्रीलेखा (R. Shreelekha) केरल पुलिस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल (DGP) बनेंगी। केरल सरकार ने आर. श्रीलेखा को डीजीपी के पद पर तैनात करने का फैसला लिया है। आर. श्रीलेखा 1 जून 2020 को केरल फायर और रेस्क्यू सर्विसेज में DGP के रूप में नियुक्त होंगी। आर. श्रीलेखा केरल की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। वह इस साल दिसंबर में रिटायर होने वाली हैं।

वर्ल्ड हंगर डे (World Hunger Day) कब मनाया जाता है?

28 मई

30 मई

26 मई

29 मई

वर्ल्ड हंगर डे (World Hunger Day) — 28 मई

प्रतिवर्ष 28 मई को **विश्व भूख दिवस** (World Hunger Day) के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे को सबसे पहले वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में भुखमरी के विषय पर जागरूकता बढ़ाना और विभिन्न उपाय के द्वारा इसे समाप्त करने पर बल देना है। **ग्लोबल हंगर इंडेक्स** ने 117 में से भारत को 102 वें स्थान पर रखा जो कि दक्षिण एशिया में सबसे कम है।

हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग को किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है?

भूटान

नेपाल

बांग्लादेश

वियतनाम

वियतनाम में मंदिर की खुदाई के दौरान 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला

वियतनाम में **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** (Archaeological Survey of India-ASI) को बलुआ पत्थर से बना एक **1100 साल पुराना शिवलिंग** खुदाई में मिला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। यहां 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियां पहले भी मिली है। 9वीं शताब्दी का यह शिवलिंग माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान मिला है।

29 मई 2020 को अजीत जोगी का निधन हुआ वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे?

झारखंड

आंध्र प्रदेश

छत्तीसगढ़

असम

अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का निधन

29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के पहले **मुख्यमंत्री अजीत जोगी** का निधन हो गया। 74 साल के जोगी को दिल का दौरा पड़ा था उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अजीत जोगी का पूरा नाम **अजीत प्रमोद कुमार जोगी** था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पेंड्रा में 29 अप्रैल 1946 को उनका जन्म हुआ था। वे B.E. Mechanical में गोल्ड मेडलिस्ट रहे बाद में वे IAS बने। 1974 से 1986 तकरीबन तक शहडोल, रायपुर और इंदौर में कलेक्टर रहे। साल 2016 में जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने “**जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी**” बनाई थी।

कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य में 800 किमी. सडकों को हर्बल सडकों के रूप में विकसित करेगी?

झारखंड

पंजाब

गुजरात

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किमी. सडकों को हर्बल सडकों के रूप में विकसित करेगी

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आठ सौ किलोमीटर सडकों को **हर्बल सडकों** के रूप में विकसित करेगी। इन सडकों के दोनों ओर औषधी, हर्बल पेड लगाए जाएंगे। **उपमुख्यमंत्री** और राज्य के लोक कल्याण विकास मंत्री **केशव प्रसाद मौर्य** ने बताया कि इन हर्बल सडकों पर ब्राह्ममी, अश्वगंधा और जटरोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड होंगे।